



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1934 (श0)  
(सं0 पटना 535) पटना, शुक्रवार, 5 अक्टूबर 2012

सं0 3ए-2-वे0पु0-08/12—10816

वित्त विभाग

संकल्प

5 अक्टूबर 2012

**विषय:—**वेतन समिति की अनुशंसा के पर वेतन पुनरीक्षण से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 के विरुद्ध बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के माँग पत्र पर विचार करने हेतु उच्चस्तरीय असंगति निराकरण समिति के गठन के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0 630 वि0 (2), दिनांक 21/01/2010 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन समिति की अनुशंसा के अनुरूप वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

1. बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन द्वारा यह शिकायत अपने माँग पत्र के द्वारा दी गई है कि वेतन समिति द्वारा कई मामलों में केन्द्र के अनुरूप वेतनमान/भत्तों की अनुशंसा नहीं की गई है ।

2. बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन से प्राप्त माँग-पत्र पर विचार करने हेतु उच्चस्तरीय असंगति निराकरण समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. श्री नवीन कुमार, पूर्व मुख्य सचिव (से0नि0) भा0प्र0से0  | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री आमिर सुबहानी, (भा0प्र0से0) प्रधान सचिव, गृह विभाग | - | सदस्य   |
| 3. श्री राहुल सिंह, (भा0प्र0से0) परियोजना निदेशक,         | - | सदस्य   |
| बिहार शिक्षा परियोजना-सह-सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग ।    |   |         |

3. समिति के लिए 'विचार के बिन्दु' (Terms of Reference) निम्नांकित होंगे:-

(क) बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के माँग-पत्र पर वेतन समिति के विचार के बिन्दु (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) की परिधि में उनके द्वारा की गई अनुशंसा तथा उनपर राज्य सरकार के निर्णय में जो त्रुटियाँ/विसंगतियाँ बतायी जायेंगी, उन्हीं पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा ।

(ख) समिति के गठित होने की तिथि से पन्द्रह दिन के अंदर प्राप्त होनेवाली आपत्तियों पर ही समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

(ग) अपनी अनुशंसाओं को गठित करने के लिए समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी ।

(घ) समिति शीघ्रातिशीघ्र और अधिकतम तीन माह की अवधि में अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप देगी ।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति उच्चस्तरीय असंगति निराकरण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्री एवं राज्यमंत्री के आप्त सचिवों/मंत्रिमंडल सचिवालय/गृह विभाग/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधानसभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्व-साधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

**अरुण कुमार सिंह,**  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 535-571+10-डी0टी0पी0।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**